

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रमाथारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1969/कार्तिक 10, 1891

No. 170] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1969/KARTIKA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi the 1st November 1969

G.S.R. 2556./Ess. Com./Sugar—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 15 of the Sugar (Control) Order, 1966 and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 1750/Ess. Com./Sugar, dated the 20th November, 1967, the Central Government hereby directs that the powers conferred upon it by clause 7 of the said Order shall also be exercisable by the Chief Director, Additional Chief Director, an Officer on Special Duty, a Director or a Deputy Director in the Directorate of Sugar and Vanaspathi, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food).

[No. 1-11/69-S Py

K. L. PASRICHA, Jt Secy

(683)

